

# ET-M2170 Series / M2170 Series

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

**EN Start Here**  
**TC 安裝說明**

**HI यहाँ आरंभ करें**  
**MN Энд эхлэ**



© 2018 Seiko Epson Corporation  
Printed in XXXXXX

## Setup / 設定 / सेटअप / Тохируулга

**Read This First**  
The ink for this printer must be handled carefully. Ink may splatter when the ink tank is being filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

**請先閱讀本說明**  
必須小心處理此印表機的墨水。在大容量墨水槽中裝填或填充墨水時，墨水可能會灑出。如果墨水碰到您的衣物或物品，可能會無法清除乾淨。

**पढ़ने इसे पढ़ें**  
इस प्रिंटर के लिए इंक को सावधानीपूर्वक भरा जाना चाहिए। इंक टैंक के भरे होने पर या पुनः इंक भरे जाने पर इंक फैल सकती है। यदि इंक आपके कपड़े या सामान पर लग जाती है, तो यह शायद निकलेगी नहीं।

**Үүнийг эхлээд уншина уу**  
Энэ принтерийн бэхтэй болгоомжтой харьцах ёстой. Бэхний савыг цэнэглэх эсвэл дахин цэнэглэх үед бэх асгарч болзошгүй. Хэрвээ бэх таны хувцас юмуу эд зүйлс дээр асгарвал, арилахгүй байж магадгүй.

See this guide or Epson video guides for printer setup instructions.  
請參閱本指南或 Epson 視訊指南以瞭解印表機設定說明。  
प्रिंटर के सेटअप निर्देशों के लिए यह मार्गदर्शिका या Epson वीडियो मार्गदर्शिका देखें।  
Принтерийн тохируулах зааврыг, энэхүү гарын авлага эсвэл Epson видео гарын авлагаас үзнэ уу.



<http://epson.sn>

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.

The initial ink bottle will be partly used to charge the print head. This bottle may print fewer pages compared to subsequent ink bottles.


原始墨水瓶會有一部分墨水被用於填充印字頭。此墨水瓶可能比後來的墨水瓶列印頁數更少。

आरंभिक इंक बोतल का उपयोग प्रिंट हेड को चार्ज करने के लिए किया जाएगा। यह बोतल बाद की इंक बोतलों की तुलना में कुछ पेजों को प्रिंट कर सकती है।

Хэвлэх толгойг цэнэглэхэд, эхний бэхний бортогыг хэсэгчлэн ашиглана. Энэхүү бэхний бортог нь дараагийн бэхний бортоготой харьцуулахад цөөн хуудас хэвлэж болно.



## 1 2 3 4

### Unpacking / 拆開包裝 / पैकिंग खोलना / Задлах






Make sure you keep the accessory box for transportation.  
請確保運輸時攜帶附件箱。  
सुनिश्चित करें कि परिवहन के लिए आपने एक्सेसरी बॉक्स भी रखा है।  
Тээвэрлэхэд зориулж дагалдах хэрэгслийн хайрцгийг хадгалахаа нэртүгээ.

Additional items may be included depending on the location.  
視乎不同位置，可能包含額外項目。  
स्थान के आधार पर अतिरिक्त आइटमों को शामिल किया जा सकता है।  
Байршлаас шалтгаалан, нэмэлт зүйлс агуулагдсан байж болно.



## 1 2 3 4

### Charging Ink / 填充墨水 / इंक चार्ज करना / Бэх цэнэглэх




- Remove the cap while keeping the ink bottle upright; otherwise ink may leak.
- Use the ink bottle that came with your product.
- Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.

- 墨水瓶保持直立時，拆下瓶蓋，否則墨水可能外洩。
- 使用產品隨附的墨水瓶。
- Epson 不保證非原廠墨水的品質或可靠性。使用非原廠墨水而導致損壞，Epson 將不提供免費的保固服務。


- इंक की बोतल की कैप निकालते समय उसे सीधा रखें; अन्यथा इंक लीक हो सकती है।
- अपने उत्पाद के साथ आने वाली इंक की बोतल का उपयोग करें।
- Epson गैर-वास्तविक इंक की गुणवत्ता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दे सकता। गैर-वास्तविक इंक का उपयोग करने से क्षति हो सकती है जो Epson की वारंटी में शामिल नहीं है।

- Бэхний бортогыг босоо байлгаж тагийг авна; эс тэгвээс, бэх асгарч болно.
- Бүтээгдэхүүнтэй хамт ирсэн бэхний бортогыг хэрэглээрэй.
- Epson жинхэнэ бус хорны чанар ба найдвартай ажиллагаанд баталгаа гаргахгүй. Жинхэнэ бус бэхийг хэрэглэх нь Epson-ы баталгаанд үл хамрагдах гэмтэл учруулж болзошгүй.








- Do not knock the ink bottle, otherwise the ink may leak.  
請勿敲擊墨水瓶，否則可能導致墨水漏出。  
इंक की बोतल को ठोके नहीं, अन्यथा इंक लीक हो सकती है।  
Бэхний савыг цохиж болохгүй. Эс тэгвээс, бэх асгарч болно.

- Pour all of the ink from the bottle into the printer.  
將墨水瓶中的所有墨水填入至印表機。  
प्रिंटर में बोतल की सारी इंक डाल दें।  
Бэхний саван дахь бүх бэхийг принтер лүү хийнэ.




- If the ink does not start flowing into the tank, remove the ink bottle and try reinserting it.
- Do not leave the ink bottle inserted; otherwise the bottle may be damaged or ink may leak.
- 如果墨水未開始流入大容量墨水槽，請取出墨水瓶並嘗試重新插入墨水瓶。
- 請勿讓墨水瓶維持插入狀態；否則墨水瓶可能會受損或墨水可能會漏出。
- यदि इंक टैंक में जाना शुरू नहीं होती है, तो इंक की बोतल को निकालें और इसे फिर से डालें।
- इंक की बोतल को डाल कर छोड़ें नहीं; अन्यथा बोतल क्षतियस्त हो सकती है या इंक टपक सकती है।
- Хэрэв бэх сав руу урсаж эхлэхгүй байвал, бэхний савыг салгаад буцааж хийж үз.
- Бэхний савыг оруулаад орхиж болохгүй. Эс бөгөөс, сав гэмтэж эсвэл бэх гоожиж болно.




- Select a language.  
選取語言。  
भाषा का चयन करें।  
Хэл сонгоно.


- When the message of seeing Start Here is displayed, press **OK** for 5 seconds.  
顯示查看安裝說明的訊息時，請按下 **OK** 鍵 5 秒。  
जब यहाँ आरंभ करें संदेश दिखने लगे, तो **OK** को 5 सेकंड तक दबाएँ।  
Энд эхлэ зурвас гарч ирсэн үед, **OK**-г 5 секунд дарна.



- Press **Start** to start initialization. This takes about 10 minutes.  
按下 **Start** 鍵以開始初始化。這需要約 10 分鐘。  
आरंभिकरण प्रारंभ करने के लिए **Start** दबाएँ। इसमें लगभग 10 मिनट लग सकते हैं।  
Start-г дарж эхлүүлнэ. Энэ нь 10 минут орчим болно.



- Make sure the printer cover is closed.  
確保已合上印表機機蓋。  
सुनिश्चित करें कि प्रिंटर का कवर बंद है।  
Принтерийн тагийг хаасан эсэхийг шалга.





## 1 2 3 4

### Checking Print Quality / 檢查列印品質 / प्रिंट गुणवत्ता को जांचना / Хэвлэх чанарыг шалгах

- Follow the on screen instructions to perform a Nozzle Check and make adjustments. When the paper loading message is displayed, see step 2.  
依據畫面說明執行噴嘴檢查並進行調整。當顯示紙張放入訊息時，請參考步驟 2。  
नॉजल जांच करने और समायोजन करने के लिए स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें। जब पेपर लोड करने का संदेश दिखे, तो चरण 2 देखें।  
Хошууг шалгахдаа дэлгэц дээрх зааврыг дагаж тохируулгыг хийнэ. Цаасыг ачаалах зурвас гарч ирэнгүүт **OK** алхмыг харна уу.

Print head cleaning uses some ink from the ink tank.  
使用墨水槽中的一些墨水清理印字頭。  
प्रिंट हेड की सफाई में इंक टैंक से कुछ इंक का उपयोग किया जाता है।  
Хэвлэх толгойн цэвэрлэгээ нь бэхний савнаас зарим бэхийг ашигладаг.



## 1 2 3 4

### Connecting to Computer / 連接電腦 / कंप्यूटर से कनेक्ट करना / Компьютертой холбогдох

<http://epson.sn>

Visit the website to install software and configure the network. Windows users can also install software and configure the network using the CD supplied.

瀏覽網站以安裝軟體和組態網路。Windows 使用者亦可使用提供的 CD 安裝軟體和組態網路。

सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और नेटवर्क कॉन्फिगर करने के लिए वेबसाइट पर जाएं। Windows उपयोगकर्ता दी गई CD का उपयोग करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और नेटवर्क को कॉन्फिगर कर सकते हैं।

Вэбсайт руу орж, програм хангамжийг суулгаад сүлжээг тохируулна уу. Windows-н хэрэглэгчид нийлүүлсэн CD-г ашиглан програм хангамжийг суулгаж, сүлжээг тохируулах боломжтой.

## How to Use / 如何使用 / उपयोग विधि / Хэрхэн ашиглах вэ




### Ink Bottle Codes / 墨水瓶編碼 / इंक बोतल कोड / Бэхний савны кодууд

For Asia / 對於亞洲 / एशिया के लिए / Ази бол  
005\*<sup>1</sup>/0055\*<sup>2</sup>

<sup>1</sup> High capacity / <sup>2</sup> Standard capacity  
<sup>1</sup> 高性能 / <sup>2</sup> 標準性能  
<sup>1</sup> उच्च क्षमता / <sup>2</sup> मानक क्षमता  
<sup>1</sup> Өндөр хүчин чадалтай / <sup>2</sup> Стандарт хүчин чадалтай

- Use of genuine Epson ink other than the specified ink could cause damage that is not covered by Epson's warranties.  
若使用非本手冊所述的 Epson 原廠墨水，而導致損壞，Epson 將不提供免費的保固服務。  
वास्तविक Epson इंक की जगह अन्य इंक का इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है जो Epson की वारंटी के तहत कवर नहीं होगा।  
Epson-н жинхэнэ бэхнээс өөр бэх ашиглалал эвдрэл гэмтэл учруулах бөгөөд үүнийг Epson-н баталгаанд хамрахгүй.

### Copying / 正在複印 / प्रति बनाना / Хуулах



- Select **Copy**.  
選取複印。  
कॉपी करें का चयन करें।  
Хуулах сонгоно.

### Refilling Ink / 填充墨水 / इंक को रिफिल करना / Бэх дахин цэнэглэх


To confirm the actual ink remaining, visually check the ink level of the product's tank.

若要確認實際的墨水存量，請查看產品的大容量墨水槽中的墨水存量。


यह पुष्टि करने के लिए कि वास्तव में कितनी इंक शेष है, सभी उत्पाद के टैंकों में इंक स्तर की देख कर जांच करें।  
Бэхний бодит үлдэгдлийн шалгахын тулд бүтээгдэхүүний саван доторх бэхний түвшинг нүдээр шалгана.

- Select **Maintenance > Reset ink level**.  
選取維護 > 重置墨水位。  
रखरखाव > स्थायी स्तर रीसेट करें का चयन करें।  
Арчилгаа > Бэхний Түвшинг Тэглэх сонгоно.
- Follow the instructions on the screen to refill the ink.  
依據畫面上的說明填充墨水。  
इंक को रिफिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें।  
Дэлгэц дээрх зааврыг дагаж бэхийг дахин дүүргэнэ уу.





## Guide to Control Panel / 控制面板指南 / कंट्रोल पैनल की मार्गदर्शिका / Хянах самбарын заавар



	Turns the printer on or off.
	Displays the home screen.
	Displays the solutions when you are in trouble.
	Use the <b>▲▼◀▶</b> buttons to move the focus to the target, and then press the <b>OK</b> button to open the selected menu or to make settings.
	Stops the current operation.
	Starts an operation such as printing or copying.
	Applies to a variety of functions depending on the situation.
	Returns to the previous screen.

## Reading the Error Status

E-01	A printer error has occurred. Open the printer cover and remove any paper or protective material inside the printer. Turn the power off and on again.
E-02	A scanner error has occurred. Turn the power off and on again.
W-01	A paper jam has occurred. Remove the paper from the printer and press the button displayed on the bottom of the LCD screen to clear the error. In some cases, you need to turn the power off and on again.
I-22	Set Wi-Fi from the <b>Push Button (WPS)</b> . Push the access point button. If there is no button on the access point, open the access point setting window, and then click the button displayed in the software.
I-23	Set Wi-Fi from the <b>PIN Code (WPS)</b> . Enter the PIN code displayed on the LCD screen into the access point or computer within two minutes.
I-31	Set Wi-Fi from the <b>Wi-Fi Auto Connect</b> . Install the software on your computer, and then press the OK button when Wi-Fi setup starts.
I-41	<b>Paper Setup Auto Display</b> is disabled. Some functions cannot be used.
I-60	Your computer may not support WSD (Web Services for Devices). The scan to computer (WSD) feature is only available for computers running English versions of Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 or Windows Vista. Make sure that the printer is correctly connected to the computer.
Recovery Mode	The printer has started in recovery mode because the firmware update failed. Follow the steps below to try to update the firmware again. 1. Connect the computer and the printer with a USB cable. 2. Visit your local Epson website for further instructions.

See the *User's Guide* (digital manual) for more details.

	開啟或關閉印表機的電源。
	顯示主畫面。
	您遇到問題時，可顯示解決方案。
	使用 <b>▲▼◀▶</b> 鍵移動焦點至目標，然後按下 <b>OK</b> 鍵以開啟選取的選單或進行設定。
	停止目前的操作。
	開始列印或複製等操作。
	適用於各種功能，根據具體情況而定。
	回到上一畫面。

## 讀取錯誤狀態

E-01	印表機發生錯誤。打開印表機護蓋，取出印表機內的任何紙張或保護材料。關閉電源並再次開啟。
E-02	掃描器發生錯誤。關閉電源並再次開啟。
W-01	發生了夾紙。從印表機中取出紙張，並按下 LCD 螢幕底部顯示的按鍵以清除該錯誤。有時，需要關閉電源並再次開啟。

I-22	從 <b>按鍵 (WPS)</b> 設定 Wi-Fi。按下存取點按鍵。如果存取點無按鍵，打開存取點設定視窗，然後點擊軟體中顯示的按鍵。
I-23	從 <b>PIN碼 (WPS)</b> 設定 Wi-Fi。在兩分鐘內將 LCD 畫面上顯示的 PIN 碼輸入存取點或電腦。
I-31	從 <b>無線網路自動連線</b> 設定 Wi-Fi。在電腦上安裝軟體，然後在 Wi-Fi 設定開始時按下 <b>OK</b> 鍵。
I-41	<b>紙張設定自動顯示</b> 已禁用。一些功能可能無法使用。
I-60	您的電腦可能不支援 WSD (裝置的網路服務)。掃描到電腦 (WSD) 功能僅可用於執行英文版 Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7 或 Windows Vista 的電腦。確保印表機已正確連接到電腦。
恢復模式	由於軟體更新失敗，印表機已開始恢復模式。請依據下面的步驟嘗試再次更新軟體。 1. 使用 USB 線繼續連接電腦與印表機。 2. 瀏覽當地 Epson 網站以獲取進一步說明。

若需更多詳細資訊，請參考**進階使用說明** (數位手冊)。

	प्रिंटर को चालू या बंद करता है।
	होम स्क्रीन को प्रदर्शित करता है।
	जब आप परेशानी में होते हैं तो समाधान प्रदर्शित करता है।
	लक्ष्य पर फोकस करने के लिए <b>▲▼◀▶</b> बटनों का उपयोग करें और फिर चयनित मेनू खोलने या सेटिंग करने के लिए <b>OK</b> बटन दबाएं।
	वर्तमान कार्यवाही को रोक देता है।
	कोई परिचालन शुरू करता है जैसे कि प्रिंट करना या कॉपी करना।
	स्थिति के आधार पर विभिन्न कार्यों पर लागू होता है।
	पिछली स्क्रीन पर वापस जाएं।

## त्रुटि स्थिति पढ़ना

E-01	कोई प्रिंटर त्रुटि हुई है। प्रिंटर कवर खोलें और प्रिंटर के अंदर से कोई पेपर या रक्षात्मक पदार्थ निकालें। प्रिंटर को फिर से चालू या बंद करें।
E-02	कोई स्कैनर त्रुटि हुई है। प्रिंटर को फिर से चालू या बंद करें।
W-01	पेपर जाम हो गया है। प्रिंटर से पेपर को निकालें और त्रुटि को दूर करने के लिए LCD स्क्रीन के नीचे प्रदर्शित बटन को दबाएं। कुछ स्थितियों में, आपको पावर बंद करके फिर से चालू करना पड़ सकता है।
I-22	<b>पुश बटन (WPS)</b> से Wi-Fi सेट करें। पहुँच बिंदु बटन पुश करें। यदि पहुँच बिंदु पर कोई बटन नहीं है, तो पहुँच बिंदु सेटिंग विंडो खोलें और फिर सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित बटन क्लिक करें।
I-23	<b>PIN कोड (WPS)</b> से Wi-Fi सेट करें। LCD स्क्रीन पर प्रदर्शित PIN कोड को दो मिनट के अंदर पहुँच बिंदु या कंप्यूटर में दर्ज करें।
I-31	<b>Wi-Fi ऑटो कनेक्ट</b> से Wi-Fi सेट करें। अपने कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और फिर Wi-Fi सेटअप प्रारंभ होने पर <b>OK</b> बटन दबाएं।
I-41	<b>कागज सेटअप स्वतः प्रदर्शन</b> अक्षम है। कुछ फ़ंक्शन को उपयोग नहीं किया जा सकता।
I-60	हो सकता है कि आपका कंप्यूटर WSD (डिवाइस के लिए वेब सेवाएं) का समर्थन न करे। स्कैनर पर स्कैन (WSD) की सुविधा केवल उन कंप्यूटर्स के लिए उपलब्ध है जो Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 या Windows Vista का अंग्रेजी संस्करण रन कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि प्रिंटर सही तरह से कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया हो।
रिकवरी मोड	प्रिंटर ने रिकवरी मोड चालू कर दिया है क्योंकि फर्मवेयर अपडेट विफल रहा। फर्मवेयर फिर से अपडेट करने की कोशिश करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। 1. कंप्यूटर और प्रिंटर को USB केवल से कनेक्ट करें। 2. आगे के निर्देशों के लिए अपनी स्थानीय Epson वेबसाइट पर जाएं।

अधिक विवरणों के लिए **उपयोगकर्ता गाइड** (डिजिटल मैनुअल) देखें।

	Принтерийг асааж, унтраана.
	Нүүр дэлгэцийг харуулна.
	Таныг асуудалтай тулгарахад шийдлийг харуулна.
	<b>▲▼◀▶</b> товчуудыг ашиглан зорилгот хэсэг рүү анхаарлаа хандуулаад, дараа нь <b>OK</b> товчийг дарж сонгосон цэсийг нээх эсвэл тохиоогроо хийнэ.
	Одоогийн ажиллагааг зогсооно.
	Хэвлэх болон хуулах үйлдлийг эхлүүлнэ.
	Нөхцөл байдалаас хамаарч янз бүрийн функцүүдэд хэрэглэгдэнэ.
	Өмнөх дэлгэц рүү буцна.

## Алдааны төлөвийг унших




E-01	Принтерийн алдаа гарсан байна. Принтерийн тагийг нээж, принтер дотор байгаа цаас болон хангамжаах материалг салгаж авна уу. Тэжээлийг дахин унтрааж, асавна уу.
E-02	Сканерийн алдаа гарлаа. Тэжээлийг дахин унтрааж, асавна уу.
W-01	Цаас бөглөрсөн байна. Принтерээс цаасыг салгаж аваад LCD дэлгэцийн доод талд харуулсан товчийг дарж алдааг ариглана уу. Зарим тохиолдолд та унтраагаад дахин асаах хэрэгтэй.
I-22	Wi-Fi-г <b>Товчлуур (WPS)</b> тохируул. Хандах цэгийн товчийг түлхэнэ. Хандах цэг дээр товч байхгүй бол хандах цэгийн тохиоогрооны цонхыг нээж, программ хангамж дээр харуулсан товчийг дарна.
I-23	Wi-Fi-г <b>PIN Код (WPS)</b> тохируул. LCD дэлгэц дээр харуулсан PIN кодыг хандах цэг рүү эсвэл хоёр минутын дотор компьютер луу оруулна уу.
I-31	Wi-Fi-г <b>Wi-Fi Автомат Холболт</b> тохируул. Компьютер дээрээ програм хангамжийг суулгаж, дараа нь Wi-Fi суурилуулалт эхлүүлнэгт <b>OK</b> товчийг дарна.
I-41	<b>Цаас тохиргоо гаргах</b> идэвхгүй байна. Зарим функцийг ашиглах боломжгүй.

I-60	Таны компьютер WSD (Төхөөрмжүүдийн эвб үйлчилгээ)-г дэмждэггүй байж болно. Компьютер луу сканердах (WSD) онцлог нь зөвхөн Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista зэргийн англи хувилбар ажиллаж буй компьютерууд дээр боломжтой. Принтерийг компьютертой эвб холбосон эсхийг баталгаажуул.
Сэргээх горим	Техник хангамжийн шинэчлэл амжилтгүй болсон тул принтер сэргээх горимоор эхэллээ. Техник хангамжийг шинэчлэхээр дахин оролдох бол доорх алхмыг дагана уу. 1. Компьютер болон принтерийг USB кабелиар холбоно. 2. Нэмэлт зааварчилгаа шаардлагатай бол орон нутгийнхаа Ерсон-ы вэбсайтаар зочилно уу.


Дэлгэрэнгүй мэдээлийг **Хэрэглэгчийн Заавар** (дижитал гарын авлага)-аас үзнэ үү.

## Clearing Paper Jam / 清除夾紙 / पेपर जाम हटाना / Цаас гацалтыг арилгах


### Printer cover / 印表機護蓋 / प्रिंटर कवर / Принтерийн таг








### Front cover / 前方護蓋 / आगे का कवर / Урд таг



### Rear cover / 後方護蓋 / पीछे का कवर / Арын таг



## Transporting and Storing the Printer / 搬運和儲存印表機 / कहीं ले जाना और रखना / Принтерийг тээвэрлэх ба хадгалах



1. Be sure to place the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak. 2. After you move it, remove the tape securing the print head. If you notice a decline in print quality, run a cleaning cycle or align the print head.

3. Tighten the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak. 4. After you move it, remove the tape securing the print head. If you notice a decline in print quality, run a cleaning cycle or align the print head.

5. Be sure to place the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak. 6. After you move it, remove the tape securing the print head. If you notice a decline in print quality, run a cleaning cycle or align the print head.

7. Be sure to place the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak. 8. After you move it, remove the tape securing the print head. If you notice a decline in print quality, run a cleaning cycle or align the print head.

9. Be sure to place the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak. 10. After you move it, remove the tape securing the print head. If you notice a decline in print quality, run a cleaning cycle or align the print head.

11. Be sure to place the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak. 12. After you move it, remove the tape securing the print head. If you notice a decline in print quality, run a cleaning cycle or align the print head.

## Important Safety Instructions / 重要安全說明 / महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश / Чухал аюулгүй ажиллагааны зааврууд

- Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.
- Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.
- Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.
- Do not let the power cord become damaged or frayed.
- Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.
- Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.
- Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands.
- Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink.
- Do not shake an ink bottle too vigorously or subject it to strong impacts as this can cause ink to leak.
- Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes.
- If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, see a doctor right away.
- Keep this product at least 22 cm away from cardiac pacemakers. Radio waves from this product may adversely affect the operation of cardiac pacemakers.

- Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.
- Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.
- Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.
- Do not let the power cord become damaged or frayed.
- Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.
- Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.
- Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands.
- Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink.
- Do not shake an ink bottle too vigorously or subject it to strong impacts as this can cause ink to leak.
- Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes.
- If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, see a doctor right away.
- Keep this product at least 22 cm away from cardiac pacemakers. Radio waves from this product may adversely affect the operation of cardiac pacemakers.

1. Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment. 2. Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard. 3. Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.

4. Do not let the power cord become damaged or frayed. 5. Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged. 6. Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.

7. Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands. 8. Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink. 9. Do not shake an ink bottle too vigorously or subject it to strong impacts as this can cause ink to leak.

10. Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes. 11. If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, see a doctor right away.

12. Keep this product at least 22 cm away from cardiac pacemakers. Radio waves from this product may adversely affect the operation of cardiac pacemakers. 13. Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.

14. Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard. 15. Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself. 16. Do not let the power cord become damaged or frayed.

17. Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged. 18. Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.

19. Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands. 20. Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink. 21. Do not shake an ink bottle too vigorously or subject it to strong impacts as this can cause ink to leak.

22. Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes. 23. If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, see a doctor right away.

24. Keep this product at least 22 cm away from cardiac pacemakers. Radio waves from this product may adversely affect the operation of cardiac pacemakers. 25. Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.

26. Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard. 27. Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself. 28. Do not let the power cord become damaged or frayed.

29. Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged. 30. Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.

## Information for Users in Taiwan Only / 台灣使用者適用資訊

- 產品名稱：多功能印表機
- 額定電壓：AC 100-240 V
- 額定頻率：50-60 Hz
- 耗電量：
  - 單機機印時：12.0 W
  - 睡眠模式：0.7 W
  - 就绪模式：4.9 W
  - 關機模式：0.2 W
- 額定電流：0.5-0.2 A
- 製造年份、製造號碼和生產國別：見機體標示

### 警告

- 檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。
- 機體規格
  - 列印方式：微針點電噴墨技術
  - 解析度：最大可達 1200 × 2400 dpi
  - 適用系統：
    - Windows 10、8.1、8、7、Vista、XP SP3以上版本(32-bit)、XP Professional x64 Edition SP2以上版本
    - Windows Server 2016\*、2012 R2\*、2012\*、2008 R2\*、2008\*、2003 R2\*、2003 SP2以上版本\*
  - (\* 僅限印表機驅動程式與掃描器驅動程式。)
  - macOS High Sierra、macOS Sierra、OS X El Capitan、OS X Yosemite、OS X Mavericks、OS X Mountain Lion、Mac OS X v10.7.x、Mac OS X v10.6.8

### 使用方法

- 緊急處理方法
  - 發生下列狀況時，請先拔出印表機的電源線並洽詢Epson授權服務中心：
    - 電源線或插頭損壞
    - 有液體灑到印表機
    - 印表機掉落或機殼損壞
    - 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION  
地址：3-3-5 Owa, Suwa-shi, Nagano-ken, 392-8502 Japan  
電話：81-266-52-3131

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司  
地址：台北市信義區松仁路 100 號 15 樓  
電話：(02) 8786-6688 (代表處)

### 注意事項

- 只能使用印表機機體上所註明的電源規格。
- 請保持工作場所的通風良好。
- 限用物質含有情況 標示內容，請至下列網址查詢。  
URL: [http://www.epson.com/TW\\_RoHS](http://www.epson.com/TW_RoHS)

### NCC警告

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條  
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條  
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

This guide includes basic information about your product and troubleshooting tips. See the *User's Guide* (digital manual) for more details. You can obtain the latest versions of guides from the following website.

本指南包含有關本產品和故障排除小貼士的基本資訊。若需更多詳細資訊，請參考 **進階使用說明** (數位手冊)。您可從以下網站獲取最新版本指南。

इस मार्गदर्शिका में आपके उत्पाद और समस्या निवारण युक्तियों के बारे में भी जानकारी शामिल होती है। अधिक विवरणों के लिए **उपयोगकर्ता गाइड** (डिजिटल मैनुअल) देखें। आप इस वेबसाइट से मार्गदर्शिका का नवीनतम संस्करण प्राप्त कर सकते हैं।

Энэ гарын авлага нь таны бүтээгдэхүүний тухай үндсэн мэдээлэл болон алдааг олж зэсварлах зөвлөмжүүд агуулдаг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг **Хэрэглэгчийн Заавар** (дижитал гарын авлага)-аас үзнэ үү. Та дараах вэбсайтаас гарыг авлагын хамгийн сүүлийн хувилбаруудыг авах боломжтой.

For outside Europe / 對於歐洲以外 / यूरोप से बाहर के लिए / Европоо өөр газар бол <http://support.epson.net/>

For Europe / 對於歐洲 / यूरोп के लिए / Европ бол <http://www.epson.eu/Support>

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GFSVG: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779.  
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirm platziert vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirm zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Обладания відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.  
Для пользователей из России срок службы: 3 года.  
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünün Saranay ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.

Tüketicilerin şikayeti we itirazları konusundaki başvuruların tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.  
Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION  
Address: 3-3, Owa 3-Home, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan  
Tel: 81-266-52-3131  
Web: <http://www.epson.com/>

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

